

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2016—माघ 19, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2016

फा. क्र. 17(ई) 706, 705-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए (दिनांक 8-2-2016 से दिनांक 17-2-2016 तक), जिला धार, नगर में स्थित भोज शाला-कमाल मौला मस्जिद में पूजा एवं नमाज हेतु उभय पक्षों/ समुदायों के समक्ष तनाव की सम्भावन को दृष्टिगत करते हुए जिला मुख्यालय सहित जिले की अन्य तहसील स्तरीय मुख्यालयों एवं बड़े कस्बाई ग्रामों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए संलग्न सूची अनुसार 58 अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान किये जाने वाले अधिकारियों की सूची

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां दी जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ब्रजेशचन्द्र पाण्डे	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, धार	संपूर्ण जिला
2	श्री पराक्रमसिंह चन्द्रावत	सहायक आयुक्त, आबकारी, जिला धार	संपूर्ण जिला
3	श्री राजेश साक्य	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार	संपूर्ण जिला

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री आर. डी. जरहा	जिला योजना अधिकारी, जिला धार	संपूर्ण जिला
5	श्री जे. पी. यादव	परियोजना प्रशासक, एकी. आदि. विकास परियोजना, धार	संपूर्ण जिला
6	श्री बालकृष्ण मोरे	जिला पंजीयक (स्टाम्पस्), जिला धार	संपूर्ण जिला
7	श्री डी. आर. वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी वन मंडल, धार	संपूर्ण जिला
8	श्री एस. के. टण्डन	कार्यपालन यंत्री, डिजाईन, माही	संपूर्ण जिला
9	श्री जे. के. नागर	महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, धार	संपूर्ण जिला
10	श्री एस. के. सिरोटिया	महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई क्र. 3, धार	संपूर्ण जिला
11	श्री अशोक चौधरी	महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई क्र. 2, कुक्षी	संपूर्ण जिला
12	श्री एन. एल. अहिरवार	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, धार	संपूर्ण जिला
13	श्री राजीव खुराना	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, धार	संपूर्ण जिला
14	श्री के. सी. नरवरे	कार्यपालन यंत्री, ई/एम नलकूप, धार	संपूर्ण जिला
15	श्री राजेन्द्र जैन	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, धार	संपूर्ण जिला
16	श्री सी. एस. नीम	कार्यपालन यंत्री, पीआययू, लोक निर्माण विभाग, धार	संपूर्ण जिला
17	श्री एस. के. पंवार	प्रभारी कार्यपालन यंत्री, आरईएस, धार	संपूर्ण जिला
18	श्री एन. एस. भंवर	कार्यपालन यंत्री, आरईएस, कुक्षी	संपूर्ण जिला
19	श्री सुनिल परमार	कार्यपालन यंत्री, आरईएस, मनावर	संपूर्ण जिला
20	श्री आर. सी. पंवार	कार्यपालन यंत्री, हाउसिंग बोर्ड, धार	संपूर्ण जिला
21	श्री आर. पी. उडके	कार्यपालन यंत्री, एनव्हीडीए, संभाग क्रमांक 3, औंकारेश्वर परियोजना मनावर	संपूर्ण जिला
22	श्री इरफान एहमद खान	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इंदिरा सागर एवं सरदार परियोजना क्रमांक 2, धरमपुरी.	संपूर्ण जिला
23	श्री परिहार	कार्यपालन यंत्री, एनव्हीडीए, क्रमांक 16, कुक्षी	संपूर्ण जिला
24	श्री ओ. पी. गुप्ता	उपायुक्ता, सहकारिता विभाग, धार	संपूर्ण जिला
25	श्री डी. एल. सूर्यवंशी	श्रम पदाधिकारी, धार	संपूर्ण जिला
26	श्री पी. एल. साहू	उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, धार	संपूर्ण जिला
27	श्री आशीष कनेश	उप संचालक, उद्यानिकी विभाग, धार	संपूर्ण जिला
28	श्री अरूण राणे	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार	संपूर्ण जिला
29	श्री एल.एन. महाजन	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर	संपूर्ण जिला
30	श्री अनिल बरेठिया	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, धार	संपूर्ण जिला
31	श्री जे. के. शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला धार	संपूर्ण जिला
32	श्री ए. पी. श्रीवास्तव	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला धार	संपूर्ण जिला
33	सुश्री निलू भट्ट	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, धार	संपूर्ण जिला
34	श्री सुभाष जैन	जिला महिला सशक्ति अधिकारी, धार	संपूर्ण जिला
35	श्रीमती भगवती काग	जिला कोषालय अधिकारी, जिला धार	संपूर्ण जिला
36	श्रीमती प्रितीबाला सस्ते	जिला रोजगारी अधिकारी, जिला धार	संपूर्ण जिला
37	श्री एस. डी. माधवाचार्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धार	संपूर्ण जिला
38	श्री बी. एस. मुवेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नालछा	संपूर्ण जिला
39	श्री प्रमोदकुमार सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तिरला	संपूर्ण जिला
40	श्री के. के. उके	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरदारपुर	संपूर्ण जिला

(1)	(2)	(3)	(4)
41	श्री पी. एस. सेंगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बाग	संपूर्ण जिला
42	श्री मोतीलाल काग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुक्षी	संपूर्ण जिला
43	श्रीमती कविता आर्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डही	संपूर्ण जिला
44	श्री ओ. पी. शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, निसरपुर	संपूर्ण जिला
45	श्री योगेन्द्रसिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गंधवानी	संपूर्ण जिला
46	श्री महेन्द्रसिंह घनघोरिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनावर	संपूर्ण जिला
47	श्री एम. एल. वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उमरबन	संपूर्ण जिला
48	श्री बिकला सिसोदिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धरमपुरी	संपूर्ण जिला
49	श्री महेश कुमार मौर्य	परियोजना अधिकारी, एकी. बाल विकास परियो., गंधवानी	संपूर्ण जिला
50	श्री नितिन चौरसिया	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., नालछा	संपूर्ण जिला
51	श्री सत्यनारायण मकवाना	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., डही	संपूर्ण जिला
52	सुश्री रेखा गर्ग	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., कुक्षी	संपूर्ण जिला
53	श्रीमती कांति निनामा	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., सरदारपुर-1	संपूर्ण जिला
54	कु. रोशनी बिलवाल	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., तिरला	संपूर्ण जिला
55	श्रीमती अंगुरबाला भूरिया	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., धरमपुरी	संपूर्ण जिला
56	श्री प्रवीण कुमार सिटोले	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., धार	संपूर्ण जिला
57	सुश्री जमना भूरिया	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियो., बदनावर	संपूर्ण जिला
58	श्री जेनेन्द्र कुमार सांवला	कार्यपालन यंत्री, औंकारेश्वर परियोजना, धामनौद	संपूर्ण जिला

सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.